



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

लखनऊ, मंगलवार, 16 नवम्बर, 2021

कार्तिक 25, 1943 शक सम्वत्

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश  
चतुर्थ तल, विकास भवन, जनपथ, हजरतगंज, लखनऊ-226001

संख्या 1785/सी0ई0ओ0-1-145/1-2006 TC V

लखनऊ, 16 नवम्बर, 2021

शुद्धि-पत्र

विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 के संदर्भ में विभिन्न कर्तव्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक संख्या में कर्मचारिवृन्द उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 1711/सी0ई0ओ0-1-145/1-2006 TC V, दिनांक 15 नवम्बर, 2021 (हिन्दी) की चौथी पंक्ति में "विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग ऑफिसर की मांग" के स्थान पर टंकण त्रुटिवश "लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग ऑफिसर की मांग" अंकित हो गया है।

अतः इसे "लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग ऑफिसर की मांग" के स्थान पर "विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग ऑफिसर की मांग" पढ़ा जाय।

आदेश से,  
अजय कुमार शुक्ला,  
सचिव।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 410 राजपत्र-2021-(919)-588 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 33 सा0 निर्वाचन-2021-(920)-1,000 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।